



FLORENCE INTERNATIONAL SCHOOL
CLASS- IX
WORKSHEET NO: 17
HINDI

NAME:

DATE: 21/04/2020

अपठित गद्यांश

भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला के लिए पुरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। अपनी निर्माणकला के कारण ही यह विश्व के सात अजूबों में से एक है। सफेद संगमरमर से बने ताज की अनुपम सुंदरता को देखकर विदेशी पर्यटक दाँतों तले ऊँगली दवा लेते हैं। ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहाँ ने अपनी वेगम मुमताज की याद में करवाया था। इसका निर्माण लगभग बीस हजार मजदूरों ने बीस वर्षों में किया था। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर लाल पत्थर लगे हैं, जिन पर पवित्र कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। ताज के गुंबद और मीनारें दूर से ही दिखाई देते हैं। ताजमहल संगमरमर के एक भव्य चबूतरे पर बना है। इसके चारों कोनों पर संगमरमर की चार मीनारें हैं। ताजमहल में शाहजहाँ की कब्रें हैं। शरद पूर्णिमा की चाँदनी रात में ताज ऐसा प्रतीत होता है, मानो दूध से नहाया हुआ है। अपनी सुंदरता और कारीगरी के कारण यह पुरे विश्व में प्रसिद्ध है।

प्रश्न-1. एक वाक्य में उत्तर दीजिए –

(क) भारतवर्ष किस बात के लिए प्रसिद्ध है?

(ख) ताजमहल के प्रवेश द्वार की क्या विशेषता है?

(ग) गद्यांश में से एक मुहावरा ढूँढ़कर लिखें?

प्रश्न-2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(क) इसका निर्माण लगभग _____ मजदूरों ने _____ में किया था।

(ख) अपनी _____ के कारण ही यह विश्व के _____ अजूबों में से एक है।